

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 596 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 25, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 ( अग्रहायण 25, 1936 )

क्र. 24139-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 15 दिसम्बर, 2014

राम नरेश यादव  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.